














## Area division by Medians (माध्यिकाओं द्वारा क्षेत्रफल विभाजन):



If D, E and F are mid-points of sides, then what fraction of total area is shaded?




$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$



$$\frac{1}{6} = \frac{4}{24}$$






$$\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$$



## Area on base division (आधार विभाजन पर क्षेत्रफल):



## Find the area of asked region, based on given ratio of sides and area:






$$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{a} = \frac{a+9}{9}$$

$$\Rightarrow 36 = a(a+9)$$

$$12 \times 3 = a(a+9)$$






i. In  $\triangle ABC$ ,  $AD$  is the median and  $G$  is a point on  $AD$  such that  $AG : GD = 2 : 1$ , then  $\text{ar}(\triangle BDG) : \text{ar}(\triangle ABC)$  is equal to :

$\triangle ABC$  में,  $AD$  माध्यिका है और  $G$   $AD$  पर केन्द्रक बिंदु है कि  $AG : GD = 2 : 1$  हैं। तो  $(\triangle BDG)$  का क्षेत्रफल :  $(\triangle ABC)$  का क्षेत्रफल किसके बराबर है?


- a) 1 : 4
- B) 1 : 9
- ~~c) 1 : 6~~
- d) 1 : 3

coaching center



$$S = \frac{20}{2} = 10$$

$$\sqrt{10 \times 3 \times 5 \times 2} = 10\sqrt{3} \times 25 \times \frac{2}{\sqrt{3}}$$



2. From a triangle  $ABC$  with sides of lengths  $40\text{ ft}$ ,  $25\text{ ft}$  and  $35\text{ ft}$ , a triangular portion  $GBC$  is cut off where  $G$  is the centroid of  $ABC$ . The area, in sq.ft of the remaining portion of triangle  $ABC$  is


भुजाओं  $40\text{ ft}$ ,  $25\text{ ft}$  और  $35\text{ ft}$  वाले एक त्रिभुज  $ABC$  में से एक त्रिभुज  $GBC$  काटा जाता है,  $G$ ,  $ABC$  का केन्द्रक है। शेष बचे हिस्से का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) जात करें।

a)  $225\sqrt{3}$

b)  $\frac{500}{\sqrt{3}}$

c)  $\frac{275}{\sqrt{3}}$



d)  $\frac{250}{\sqrt{3}}$



3. In a  $\triangle ABC$ , F and E are the mid point of AB and AC respectively, G is the centroid of  $\triangle ABC$ . If P, Q and R are the mid points of EF, FG and GE respectively. Find the ratio of area of  $\triangle PQR$  to area of  $\triangle ABC$ .

त्रिभुज  $\triangle ABC$  में, F और E क्रमशः भूजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं। बिंदु G त्रिभुज  $\triangle ABC$  का केन्द्रक है। अगर बिंदु P, Q और R क्रमशः भूजाओं EF, FG और GE के मध्य बिंदु हैं तो त्रिभुज  $\triangle PQR$  और त्रिभुज  $\triangle ABC$  के क्षेत्रफलों का अनुपात पता करो।

- a)  $\frac{1}{24}$
- b)  $\frac{1}{36}$
- c)  $\frac{1}{32}$
- d)  ~~$\frac{1}{48}$~~




4. Side of square  $ABCD$  is of 6 units.  $E$  and  $F$  are mid points of side  $AB$  and  $AD$  respectively.  $G$  is point of intersection of line  $DE$  and  $BF$  then find the area of quadrilateral  $BGDC$ .


वर्ग  $ABCD$  की भुजा की लम्बाई 6 इकाई है।  $E$  और  $F$  क्रमशः भजा  $AB$  और  $AD$  के मध्य बिंदु हैं।  $G$  रेखा  $DE$  और  $BF$  का प्रतिछेद बिंदु है तो चतुर्भुज  $BGDC$  का क्षेत्रफल बताइए.

- a) 18
- b) 24
- c) 27
- d) 21

*coaching center*



$$OQP = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 12 = 6$$




5.  $ABCD$  is a square of side  $12\text{ cm}$ . Point  $P$  and  $Q$  are the mid point of side  $DC$  and  $BC$  respectively. Find the area of the shaded region  $OQP$ .

$ABCD$   $12$  सेमी भुजा का वर्ग है। बिंदु  $P$  और  $Q$  क्रमशः  $DC$  और  $BC$  के मध्य बिंदु हैं। छायांकित क्षेत्र  $OQP$  का क्षेत्रफल कीजिए?

- a) 12
- b) 9
- c) 8
- d) 6

coaching center

$$\frac{\text{Base of } \triangle ABQ}{\text{Base of } \triangle ABC} = \frac{1}{5}$$




6. In  $\triangle ABC$ , P is a point on BC such that  $BP : PC = 2 : 3$  and Q is the midpoint of BP. Then  $\text{ar}(\triangle ABQ) : \text{ar}(\triangle ABC)$  is equal to:

$\triangle ABC$  में BC पर P एक बिन्दु है जिससे  $BP : PC = 2 : 3$  और Q बिन्दु BP का मध्य बिन्दु है। तो  $\text{ar}(\triangle ABQ) : \text{ar}(\triangle ABC)$  बराबर है:

- ~~a) 1 : 5~~
- b) 2 : 5
- c) 2 : 3
- d) 1 : 4

coaching center

$$\frac{3}{7 \times 2} = \frac{3}{14}$$




7. In  $\triangle ABC$ ,  $P$  is a point on  $BC$  such that  $BP : PC = 3 : 4$  and  $Q$  is the midpoint of  $BP$ . Then  $\text{ar}(\triangle ABQ) : \text{ar}(\triangle ABC)$  is equal to:

$\triangle ABC$  में  $BC$  पर,  $P$  वह बिन्दु है जिससे  $BP : PC = 3 : 4$  और  $Q$  बिन्दु  $BP$  का मध्य बिन्दु है। तो  $\text{ar}(\triangle ABQ) : \text{ar}(\triangle ABC)$  बराबर है:

- a) 1 : 4
- b) 2 : 7
- c) ~~3 : 14~~
- d) 3 : 8

coaching center

$$\frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 36$$



8. In the equilateral triangle ABC,  $AD = DE = BE$ , D and E lies on the AB. If each side of the triangle be 6 cm then the area of the shaded region is:

समबाहु त्रिभुज ABC,  $AD = DE = BE$  हैं और D और E रेखा AB पर हैं AB = 6 cm तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ?


- a)  $9 \text{ cm}^2$
- ~~b)  $6\sqrt{3} \text{ cm}^2$~~
- c)  $5\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- d) None of these

coaching center

9. In  $\triangle ABC$ , D is a point on BC such that  $BD:DC = 7:9$  and P is a point on AD such that  $AP:PD = 5:9$ . Then  $\text{ar}(\triangle BPD) : \text{ar}(\triangle ABC)$  is equal to:



$\triangle ABC$  में BC पर, D वह बिन्दु है जिससे  $BD:DC = 7:9$  और P रेखा AD पर एक बिंदु है ताकि  $AP:PD = 5:9$ . तो  $\text{ar}(\triangle BPD) : \text{ar}(\triangle ABC)$  बराबर है:

- a) 9 : 16      b) 16 : 9  
~~c) 9 : 32~~      d) 32 : 9




$$\begin{aligned}
 & \text{ABC} \xrightarrow{\times \frac{7}{16}} \\
 & \text{ABD} \xrightarrow{\times \frac{9}{14}} \\
 & \cancel{\frac{7}{16} \times \frac{9}{14}} = \frac{9}{32}
 \end{aligned}$$

coaching center




coaching center



10. In a  $\triangle ABC$ , D and E are two points on sides  $AB$  and  $BC$  respectively such that  $AD:DB = 2:3$  and  $DE \parallel AC$ . If the area of  $\triangle ADE$  is equal to  $18 \text{ cm}^2$  then what is the area (in  $\text{cm}^2$ ) of  $\triangle ABC$ ?

$\triangle ABC$  में, D और E क्रमशः  $AB$  और  $BC$  पर दो बिंदु हैं जैसे  $AD:DB = 2:3$  और  $DE \parallel AC$ । यदि  $\triangle ADE$  का क्षेत्रफल  $18$  सेमी<sup>2</sup> है, तो  $\triangle ABC$  का क्षेत्रफल क्या है?

- a) 30
- b) 75 (not correct)
- c) 54
- d) 45




II. In the given figure, in  $\triangle ABC$ ,  $DE$  is parallel to  $BC$  and  $15DE = 8BC$ . If the area of  $\triangle ADE = 64\text{cm}^2$  then find the area of  $\triangle CED$ .

दी गयी आकृति में,  $\triangle ABC$  में  $DE$  भुजा  $BC$  के समांतर है और  $15DE = 8BC$  है। यदि  $\triangle ADE$  का क्षेत्रफल  $64\text{cm}^2$  है तो  $\triangle CED$  का क्षेत्रफल बताइए।

- a) 120
- ~~b) 56~~
- c) 49
- d) 72




$$\frac{1}{3} \times \frac{6}{14} = \frac{1}{7}$$



12. In a  $\triangle ABC$ , P, Q and R are three points on side BC, such that  $BP = 3x$ ,  $QR = 2x$ ,  $PQ = 4x$  and  $RC = 5x$ . If G is centroid then, find the ratio of area of  $\triangle PGR$  to area of  $\triangle ABC$ .

किसी त्रिभुज  $\triangle ABC$  में तीन बिंदु P, Q और R भुजा BC पर इस प्रकार हैं कि  $BP = 3x$ ,  $QR = 2x$ ,  $PQ = 4x$  और  $RC = 5x$  हैं। अगर G इसका केन्द्रक है तो त्रिभुज  $\triangle PGR$  एवं  $\triangle ABC$  के क्षेत्रफल का अनुपात पता करो।

- a) 1: 3
- b) 1: 6
- ~~c) 1: 7~~
- d) 2: 13



13. PQR is a triangle, whose area is  $180\text{cm}^2$ . S is a point on side QR, such that PS is the angle bisector of  $\angle QPR$ . If  $PQ : PR = 2 : 3$ , then what is the area (in  $\text{cm}^2$ ) triangle PSR?



*PQR* एक त्रिभुज है, जिसका क्षेत्रफल  $180\text{cm}^2$  है। S, भुजा QR पर एक बिंदु इस प्रकार है कि  $PS, \angle QPR$  पर कोण द्रविभाजक है। यदि  $PQ : PR = 2 : 3$  है, तो त्रिभुज PSR का क्षेत्रफल ( $\text{cm}^2$  में) क्या है?

- a) 90
- b) ~~108~~
- c) 144
- d) 72

M. In a triangle  $ABC$ ,  $AB = 4\text{cm}$ ,  $AC = 12\text{ cm}$ , if the area of triangle  $ABD = 40\text{ cm}^2$ . Find the area of triangle  $ABC$  if  $AD$  is angle bisector.


त्रिभुज  $ABC$  में  $AB = 4\text{cm}$ ,  $AC = 12\text{cm}$  है। क्षेत्रफल त्रिभुज  $ABD = 40\text{cm}^2$  है। अगर  $AD$  कोणसमद्विभाजक हो तो त्रिभुज  $ABC$  का क्षेत्रफल पता करो।

- a) 80      b) 120  
~~c) 160~~      d) 100



$$\frac{240}{2} = 120$$

~~$$\frac{3}{5} \times \frac{1}{2} \times 80 \times 60$$~~



15. In the right angle  $\triangle ABC$ . BD divides the triangle  $ABC$  into two triangles of equal perimeters. Find the area of  $\triangle ABD$ , given that  $AC = 100$ ,  $BC = 80$  and  $\angle B = 90^\circ$ .

किसी त्रिभुज  $\triangle ABC$  में, BD त्रिभुज  $ABC$  को दो समान परिमापों वाले त्रिभुजों में बांटता है।  $\triangle ABD$  का क्षेत्रफल पता करो अगर  $AC = 100$ ,  $BC = 80$  और  $\angle B = 90^\circ$  हो।

- a) 2400  
b) 1440  
c) 960  
d) 1200


~~b) 1440~~  
~~d) 1200~~

coaching center

16. In the below figure,  $ABCD$  is a parallelogram. If area of  $\triangle OAB = 19 \text{ cm}^2$  then, find the area of  $\triangle OBC$ .

निम्न आकृति में  $ABCD$  एक समान्तर चतुर्भुज हैं। अगर क्षेत्रफल त्रिभुज  $\triangle OAB = 19 \text{ cm}^2$  है तो  $\triangle OBC$  का क्षेत्रफल क्या होगा?

- a) 15
- b) 18
- c) 19
- d) CND




$$\begin{aligned} ax + bx &= ay + by \\ \Rightarrow \cancel{2(a+b)} &= \cancel{(a+b)y} \end{aligned}$$

*coaching center*

① Cosine rule

$$\text{② } \text{ar } ABC = \text{ar } ABD + \text{ar } ACD$$

$$\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot AD \cdot \sin 30^\circ + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot AD \cdot \sin 30^\circ$$



$$\text{③ } \frac{\text{ar } ABD}{\text{ar } ABC} = \frac{4}{7}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{1}{2} \times 4 \times AD \times \sin 30^\circ}{\frac{1}{2} \times 4 \times 3 \times \sin 60^\circ} = \frac{4}{7}$$

$$AD = \frac{4 \times 3 \times \cancel{2} \times \sqrt{3}}{7 \times 1 \times \cancel{2}}$$

17. In a triangle  $ABC$ , the internal bisector of the angle  $A$  meets  $BC$  at  $D$ . If  $AB = 4$ ,  $AC = 3$  and  $\angle A = 60^\circ$ , then the length of  $AD$  is

एक त्रिभुज  $ABC$  में, कोण  $A$  का अंतर्द्विभाजक  $BC$  में बिंदु  $D$  पर मिलता है। यदि  $AB = 4$ ,  $AC = 3$  और  $\angle A = 60^\circ$ , तो  $AD$  की लम्बाई ज्ञात करो।


a)  $2\sqrt{3}$

b)  $\frac{12\sqrt{3}}{7}$

c)  $\frac{15\sqrt{3}}{8}$

d)  $\frac{6\sqrt{3}}{7}$

$$\text{ar } BCD + \text{ar } ACD = \text{ar } ACB$$



$$\frac{1}{2} \times 5 \times CD \sin 30^\circ + \frac{1}{2} \times 12 \times CD \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 12 \times 5$$

$$\Rightarrow CD \left( \frac{5}{2} + 12 \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 60$$

$$\Rightarrow CD = \frac{60 \times 2}{5 + 12\sqrt{3}}$$

18. Let ABC be a right-angled triangle with  $BC = 5$  cm and  $AC = 12$  cm. Let D be a point on the hypotenuse AB such that  $\angle BCD = 30^\circ$ . What is the length of CD?

ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमे  $BC = 5$  cm और  $AC = 12$  cm है। बिन्दु D भुज AB पर इस प्रकार है कि  $\angle BCD = 30^\circ$  है। CD की लंबाई क्या है?

a)  $\frac{60}{13}$  cm

b)  $\frac{17}{2}$  cm

~~c)  $\frac{120}{5+12\sqrt{2}}$  cm~~

d)  $\frac{120}{5+12\sqrt{3}}$  cm